

Date: August 13, 2022

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
(Serip Code: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited (Scrip Code: 532777)

#### Sub.: <u>Intimation of Publication of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for</u> the Quarter ended June 30, 2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 published in the following editions: -

- Financial Express (National Daily newspaper) on August 13, 2022
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on August 13, 2022

Submitted for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Info Edge (India) Ltd.** 

Jaya Bhatia

**Company Secretary & Compliance Officer** 

Encl: as above

Report card

Revenue Ebitda

change (%)

(₹ cr) Q1FY22 Q1FY23

#### • SUMIT DEB, CHAIRMAN & MD, NMDC

# **ONGC** profit **zooms 251%** to ₹15,206 cr

STRONG PERFORMANCE



The standalone

revenue from

while the firm

registered a 91%

y-o-y growth in

offshore business

at ₹27,990 cr

(naukri.com

**FE BUREAU** New Delhi, August 12

**ONGC ON FRIDAY** reported a 251% year-on-year rise in its standalone net profit in the April-June quarter to ₹15,206 crore on the back of strong operating performance and

top-line growth. The standalone revenue from operations grew by 84% to operations grew by ₹42,321 crore. 84% to ₹42,321 cr, The company registered a 91% y-o-y growth in offshore business ₹27,990.4 onshore business increased by 72% ₹14,330.3

crore during the quarter. The company said its oper-

ating margin improved 49.57% compared with 32.01% a year ago. Net profit margin was 35.93% compared with 18.83% in the first quarter of the last fiscal.

While its net realisation from the nominated oil blocks increased by 73.4% to ₹8,384 a barrel, the realisation from joint venture blocks rose by 71.7% to ₹8,467 a barrel. On a consolidated basis,

ONGC's net profit for the quarter rose by 25.3% to ₹8,581 crore compared with ₹6,847 crore a year earlier. revenue went up by 69% to ₹1.82 trillion.

Including its joint ventures, ONGC's crude oil production during quarter increased by 1.9% to 5.494

million tonne, while gas production improved by 1.4% to 5.383 billion cubic metre (BCM).

# 'Iron ore prices have bottomed out'

For the first time since April, state-run iron ore miner NMDC increased prices of fines on Thursday - ₹100/tonne on fines and ₹200/tonne for lump ore. CMD Sumit Deb told Surya Sarathi Ray that the prices of the steelmaking raw material may have bottomed out. Edited excerpts:

Does it indicate the prices will go up further? Iron ore prices have bottomed out. NMDC had taken the lead in reducing prices so that steel can become affordable and pressure on inflation reduces. Steel prices have now fallen considerably. Our latest price hike has been very marginal. But it does not offer any indication

that prices will go up from here.

Also, because of the huge rainfall

in our mining areas, production

You have recently raised prices.

In the first quarter, your sales were down by 17% because of

subdued demand from the

was a constraint.

steel industry. Are you seeing demand pick-up? Definitely, there has been some

improvement in offtake in the current quarter. Currently, whateverwe are producing is getting sold. There is no issue on offtake.

Last year, NMDC produced 42 million tonne (MT) iron ore. What is your target for production for the current fiscal

We are looking at 47-48 MT production this fiscal. By 2025, we plan to increase our production to 67 MT and 100 MT by 2030. We are ramping up capacity at both Bailadalia in

Chhattisgarh and Donimalai,

and in the long term?

What's the progress on demerger of the steel plant? We'll complete the process by the end of current quarter.

How much

Karnataka.

investment have you made in the steel plant so far and how much additional investment is required to become operational? We have already made ₹22,000-

crore investment in the steel plant. Some additional investment is required before the plant goes on stream, but that would be marginal. The plant would be operational by September this year.

Yes, we are open to that. NMDC Do you plan to set up another has always been on the look-out. steel unit going forward?

> No, we don't including Africa. Through our have any such plan. What will be

your focus areas going You don't need coking coal, forward? The

**International Coal Ventures** (ICVL). Are you going to continue with that?

It is a strategic investment

and we are going to continue with that.

focus will mostly be on iron ore

and value addition of the raw

material through pelletisation.

We have a 1.2 mtpa pellet unit

in Karnataka and are putting up

a two mtpa at Jagdalpur in

Chhattisgarh. We are also look-

ing at putting up pellet units in

Vizag and other places so that

we can have a six mtpa pellet

You are also looking for some

mines abroad for acquisition.

We have done explorations out-

side in various geographies,

Australia-based exploration

arm, we are looking at gold,

cobalt, lithium and nickel assets.

still you have 26% stake in

capacity by 2025.

## Grasim profit rises 16% to ₹1,933 cr on all-round growth

Mumbai, August 12

GRASIM INDUSTRIES, THE flagship company of Aditya Birla Group, on Friday posted a 16% rise in consolidated net profit at ₹1,933 crore for the quarter ended June, led by all-round growth in key businesses.

The company had posted a net profit of ₹1,667 crore for the same quarter of the previous financial year. The firm's revenue rose 41%

posted during the same period a year ago. Consolidated Ebitda rose 10% to ₹5,233 crore from ₹4,736 crore recorded in the first quarter of the previous fiscal, a company statement said. On a standalone basis, the company's net profit rose 68% to ₹809 crore (from ₹482 crore in the year-ago period), while

crore (₹3,763 crore) and Ebitda

rose 69% to ₹1,364 crore (₹805

crore). The standalone revenue

and operating Ebitda have hit

cose Staple Fibre (VSF) business rose 76% to 197 kilo tonne (KT) with its 600-tonne per day brownfield plant at Vilayat Gujarat, contributing about 51 KT to the sales. The India-centric demand for textiles remained strong during the quarter, it said, adding that cotton prices which peaked in June this yearhave softened on fears of a global recession leading to demand slowdown.

## Zephyr Peacock plans 7-9 investments from \$100-m third fund in next 2 years

**TUSHAR GOENKA** Bengaluru, August 12

**ZEPHYR PEACOCK** — the Indian investing wing of New York-headquartered private equity (PE) firm Zephyr Management — plans to make 7-9 investments in the country over the next 18-24 months. The third fund — which has atotal corpus of \$100 million will make a total of about 14-15 investments, Pankaj Raina, MD, investments, told FE.

The PE firm, from its third



Zephyr Peacock MD, investments. Pankai Raina

fund — which started disbursing capital from 2020 — has already made investments in six Indian companies, namely:

Shiksha Finance, Loanzen, Aggromalin, Poshn, ZippMat and Ripplr. Raina, who said the PE firm is sector-specific — will bet on the financial services. food and agriculture and infrastructure ancillaries space for its new investments.

"We are largely skewed towards climate finance, by the way of EVs, we'll also continue and focus on digitisation of supply chains. Within food and agri, we'll look at farming models which address climate change.

High growth and large under-

**V**shiksha

absence of dominant players and provides an opportunity for small businesses to become market leaders are a few things we are attracted to," Raina said. He added the initial investments in each company will be limited to a maximum of \$3 million. "Our investments will be

served markets where there's an

anywhere around \$1-3 million and invest more as they continue to grow, there's no point in sinking more money. The 7-9 investments will mark the end of our third fund," he added.

Jeevansathi.

# CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED

CIN: L67120MH1997PLC112443 Registered Office: Unit No. A-2501, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound.

N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013, Maharashtra, India. Tel: +91-22-2302 3333 Fax: +91-22-2300 2036 Fmail ID: cdslagm@cdslindia.com Website: www.cdslindia

NOTICE TO THE MEMBERS OF TWENTY-FOURTH (24TH) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM"), RECORD DATE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Twenty Fourth (24") Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Central Depository Services (India) Limited ("the Company/CDSL") will be held on Thursday, September 15, 2022 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without physical presence of the Members of the Company, to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, which will be circulated in due course in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), as amended from time to time, and the General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 and 21/2021 dated December 14, 2021 read with Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 along with Circular Nos. 14 & 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively, and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as 'Applicable Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ['SEBI Listing Regulations"]. Members can attend the meeting and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the detailed procedure for e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the above circulars, Notice of the AGM and the Annual Report for Financial Year 2021-22, will be sent in due course only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register/update their email addresses and mobile numbers with the Company through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited at mt.helpdesk@linkintime.co.in

 The Notice convening the 24" AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will also be made available on the website of the Company at www.cdslindia.com and on the website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") at https://evoting.kntech.com/public/

Manner of Casting vote through e-voting: In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting during the AGM

Manner for registering/updating email address: In order to receive the Notice and Annual Report, the Members are requested to register/ update their email address with: the (a) For Members holding shares in physical mode may register their email address by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Registrar and Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited, at Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in (b) For Members holding shares in **Demat mode** may register their email address by contacting their respective Depository Participants (DPs).

Record date for Dividend and payment thereof:

will be provided in the Notice of the AGM.

 a) The Company has fixed Thursday, September 08, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the eligibility of the members to receive Dividend for the Financial Year 2021-22. Dividend, if declared at the meeting, will be paid within a period of 30 days from the conclusion of the AGM.

b) In case of Members holding shares in electronic form, Bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for payment of dividend and printing dividend warrants. Members are also requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective Depository Participant(s).

c) Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividend directly in their Bank account through Electronic Clearing Service or any other means, are requested to follow the following procedure and provide the relevant documents to M/s. Link Intime India Private Limited, at their Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in latest by Thursday, September 08, 2022.

. For registration of e-mail address and / or updation of Bank Account details, please send a written request in Form ISR-1 (available at https://www.cdslindia. com/downloads/InvestorRels/ShareholderCorner/Form% 20ISR-1.pdf) to the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Link Intime India Private Limited, at their Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in along with details of Folio Number, name of the member, copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested copy of PAN card), Aadhaar (self-attested copy of Aadhaar card). Additionally, member must also provide a self-attested copy of the cancelled cheque leaf bearing the name of the first holder / bank statement duly attested by the Bank Manager (along with the details of 9-digit MICR Code Number and 11-digit IFSC), for updating Bank account details.

d) Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer the Notes in the Notice of AGM.

For any clarifications or assistance, the Members may contact RTA, M/s. Link Intime India Private Limited, at Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in or write to the Company at cdslagm@cdslindia.com

> By Order of the Board of Directors For Central Depository Services (India) Limited

Nilay Shah Place : Mumbai Group Company Secretary & Head Legal Membership No.: A20586

infoedge INFO EDGE (INDIA) LIMITED Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 Amount in ₹ (Mn) **Results on Standalone Basis Results on Consolidated Basis** 

99acres

Particulars	3 months ended 30/06/2022	Preceding 3 months ended 31/03/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2021	Previous year ended 31/03/2022	3 months ended 30/06/2022	Preceding 3 months ended 31/03/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2021	Previous year ended 31/03/2022
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from operations (net)	5,076.59	4,555.12	3,283.00	15,624.59	5,472.65	4,729.47	3,286.03	15,890.26
2. Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,941.52	1,594.60	1,333.72	5,892.77	3,394.49	2,857.30	450.03	30,254.04
3. Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,941.52	1,594.60	1,333.72	101,008.98	3,394.49	7,603.06	1,954.85	142,001.14
4. Net Profit for the period after tax	1,484.26	1,206.96	1,052.76	89,225.47	2,924.31	7,196.11	1,576.42	128,822.30
5. Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)]	(28,233.14)	(56,851.52)	1,066.79	96,225.91	(33,419.72)	(64,207.81)	1,582.34	121,120.77
6. Equity Share Capital	1,289.84	1,287.84	1,287.84	1,287.84	1,289.84	1,287.84	1,287.84	1,287.84
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year				138,434.13				171,126.55
Earning per share (of ₹10 each) (not annualised)								
a) Basic - Profit after tax (after exceptional items)	11.54	9.38	8.19	693.25	13.91	48.86	12.03	991.38
a) Basic - Profit after tax (before exceptional items)	11.54	9.38	8.19	35.78	13.91	11.99	0.32	223.41
b) Diluted - Profit after tax (after exceptional items)	11.48	9.32	8.13	689.20	13.84	48.58	11.94	985.58
b) Diluted - Proft after tax (before exceptional items)	11.48	9.32	8.13	35.57	13.84	11.92	0.32	222.10
Note:					7			2

Note:

Date: August 12, 2022

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies

(Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. Place: Noida

not an assumption.

I arrive at a conclusion

Inform your opinion with detailed analysis.







New Delhi

Hitesh Oberoi

Managing Director

indianexpress.com

Date : August 13, 2022

to ₹28,042 crore on a consolidated basis from ₹19,919 crore "all-time highs", it said. Grasim's sales volume of Visrevenue rose 93% to ₹7,253

### यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गोलाबारी की खबरों पर भारत ने चिंता जताई

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 12 अगस्त।

भारत ने यूक्रेन में जपोरिज्जिया परमाण् ऊर्जा संयंत्र के इस्तेमाल हो चुके ईंधन भंडारण केंद्र के पास गोलाबारी की खबरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके नतीजे लोगों के लिए 'गंभीर' हो 📙 सकते हैं। साथ ही भारत ने परमाणु केंद्रों की

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी संयम बरतने का आ'गेन भी किया है।

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि यूक्रेन में जपोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट लड़ाई से केंद्र को कुछ नुकसान हुआ है और उन्होंने तत्काल एक निरीक्षण मिशन को संयंत्र का दौरा करने की अनुमित देने का आह्वान किया। युक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइर्नेस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली -110023

CIN: U67190DL2006GOI144520

निश्वित अबधि संविदा पर अनुसंधान सहायक

(रिसर्च एसोसिएट) (इंटर्न) की आवश्यकता

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), भारत सरकार का

एक पूर्ण स्वामित्वाधीन उद्यम है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न अर्थक्षम

अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

आईआईएफसीएल की दो भारतीय कंपनी यानि आईआईएफसीएल प्रोजेक्टस लिमिटेड

एवं आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त लंदन (यू.के.) में

कंपनी सडक, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डॉ, अंतर्देशीय जलमार्ग, बिजली, एसईजेड, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज चैन, उर्वरक निर्माण उद्योग एवं पयर्टन सहित बुनियादी ढांचे की

परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा घरेलू बाजार

द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसी जैसे जेबीआईसी, केएफडब्ल्यू, एडीबी एवं विश्व बैंक से

कृपया पूर्ण विवरण एवं आवेदन पत्र हेतु हमारी वेबसाइट https://www.iifcl.in के

सभी संबन्धित प्रमाणित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र भरकर 27 अगस्त 2022 से पहले

साथ ही, आवेदक संबन्धित प्रमाणित दस्तावेजों सहित भरे हुए आवेदन पत्र की मूल प्रति

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड CIN: U74899DL1991PLC046774 पंजीकृत कार्यालय: 34, सामुदायिक केंद्र, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057,

फोन: 011-4948 7150 | फैक्स: 011-4948 7197-98

ई-मेल: litigation@herofincorp.com

वेबसाइट: www.herofincorp.com

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबिक हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल), एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी ने, वित्तीय

आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके बाद

''सरफैसी अधिनियम, 2002'' कहा जायेगा) के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के

1. मैसर्स हॉनी ट्रेडिंग कम्पनी (ऋणधारक) जिसका कार्यालय है : 6 आईएन 1524/28, नाईवाला

करोल बाग, सेन्ट्रल दिल्ली-110005 तथा साथ ही: मकान सं. 257, दूरियाई कचेरा, वर्साबाद दादरी,

. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा (गारंटर) निवासी** : मकान सं. 257, दूरियाई कचेरा, वर्साबाद दादरी, गौतमबुद्ध

. **श्री आदेश कुमार (गारंटर) निवासी** : मकान सं. 257, दुरियाई कचेरा, वर्साबाद दादरी, गौतमबुद्ध नगर,

से सूचना में उल्लिखित राशि 19.04.2021 को देय रु. 58,00,357,90 (रुपये अन्डावन लाख तीन सौ सत्तावन

एवं पैसे नब्बे मात्र) तथा प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों

ऋणकर्ता/जमानती द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की

धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 10 अगस्त, 2022

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन देय 19.4.2021 को रु. 58,00,357,90 (रुपये अन्ठावन

लाख तीन सौ सत्तावन एवं पैसे नब्बे मात्र) तथा उसका प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए एचएफसीएल के

प्रतिभत आस्तियों को छड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13

चल सम्पत्ति / प्रतिभूत आस्ति का विवरण निम्नलिखित है :

दी कांगडा को—ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

परिशिष्ट IV [ नियम 8(1) देखें ] आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेत)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने ''दी कांगड़ा को—ऑपरेटिव बैंक लि.'', प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूना मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110055 में है, के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (२००२ का ५४) के अंतर्गत और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, बैंक ने एक मांग सूचना दिनांकित 10.12.2021 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता श्री प्रदीप मदान पुत्र श्री अशोक कुमार मदान निवासी डब्ल्यूजेड–993–995, भूतल, पंखा रोड, नांगल राया एक्स., नई दिल्ली—110046, यहां पर भीः श्री प्रदीप मदान पुत्र श्री अशोक कुमार मदान द्वारा मैसर्स ओलिवर अपेरल्स प्रा. लि., एफ–347, सुदर्शन पार्क, मोती बाग, नई दिल्ली को और बंधककर्ता एवं जमानतदार श्रीमती संतोष मदान पत्नी श्री अशोक कुमार मदान निवासी डब्ल्यूजेड–993–995, भूतल, पंखा रोड, नांगल राया एक्स., नई दिल्ली—110046 को भी सूचना में उल्लिखित राशि रु. 27,92,752/-**(रुपए सत्ताईस लाख बयानबे हजार सात सौ बावन मात्र)** का, सूचना की तिथि से लेकर के भूगतान की तिथि तक समय–समय पर इस ऋण खाता हेत् लागू अनुसार भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा

ऊपर वर्णित उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि बैंक ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 10 अगस्त

उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि बंधककृत संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 27,92,752/- की एक राशि का, सूचना की तिथि से लेकर के वसूलीकरण की तिथि तक समय–समय पर इस ऋण खाता हेतु लागू अनुसार भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शूल्कों के साथ, और उक्त राशि की वसूली करने में बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों हेतू "दि कांगड़ा

उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार का ध्यानाकर्षण निम्न वर्णित बंधककृत संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा 13 की उप–धारा (८) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित

संपत्ति का विवरण विचाराधीन सम्पत्ति, संपत्ति निर्मित भू तल के समस्त वह भाग तथा अंश जो छताधिकारों के निर्मित संपूर्ण भू तल है बिना हैं जो संपत्ति सं. डब्ल्यूजेड–993 से 995 में से हैं, जिनकी भूमि माप जो छताधिकारों के 110 वर्ग गज है जो खसरा सं. 445/246 में से है और ग्राम नांगल राया बिना है, जिसकी क्षेत्र, के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, नांगल राया एक्सटेंशन के रूप में अभिज्ञात कॉलोनी,

-29 कम्यनिटी सेन्टर पंखा रोड जनकपरी नई दिल्ली - 110058 फोन : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 ोलः leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com वेपलाईटः www.kangrabank.com

आपूर्तिकर्ता का नाम

कैल्सन हाइड्रोमेटिक मशीन टुल्स

कैल्सन हाइड्रोमेटिक मशीन टुल्स

मात्रा

अधिकृत प्राधिकारी

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 17.05.2021 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में :

रिक्तियाँ

कुल - 10

अनारक्षित वर्ग-04, ओबीसी-02,

एससी-01, एसटी-01, ईडबल्यूएस-02

महाप्रबंधक

आईआईएफसी (युके) लिमिटेड के नाम से विदेश में भी एक सहायक कंपनी है।

भर्ती का माध्यम

या तक recruitment@iifcl.in पर ई-मेल द्वारा भेजें।

आईआईएफसीएल को (डाक द्वारा) भेज सकते हैं।

दीर्घकालिक संसाधन जुटाती है।

अनुसंघान सहायक

(रिसर्च एसोसिएट)

deroFinCorp.

गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207

की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मशीनरी का विवरण


मिक्सिंग मशीन 300ली. (ऑटो) होट मॉल्डिंग हाइड्रॉलिक प्रैस 250 लीटर

पर्फोमिंग प्रैस

तिथि : दिल्ली एनसीआर

स्थान : 10.8.2022

(5)



जुड़ी

किसी

लोगों

दुर्घटना

स्वास्थ्य और

पर्यावरण पर

परिणाम हो

गांभाीर

सकता है।'

भी

का

के

पंजाब नैशनल बैंक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, मोन : 8283810870, 9971720088, ई-मेलः cs8228@pnb.co.in

शुद्धि पत्र

दिनांक 09.07.2022 और 30.07.2022 को इस समाचार पत्र (जनसत्ता) में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सुचित किया जाता है कि कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स की प्लांट एवं मशीनरी की ई--नीलामी की बोली राशि के अतिरिक्त लाग् जीएसटी का भगतान सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। शेष विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

# केरल के विधायक ने जम्मू-कश्मीर पर दिया विवादित बयान

तिरुवनंतपुरम, 12 अगस्त (भाषा)।

केरल के पूर्व मंत्री और सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक के टी जलील ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को भारत अधीन जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर के रूप में वर्णित

करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जलील ने अपने कश्मीर दौरे के संबंध में एक फेसबुक पोस्ट में यह टिप्पणी की। मलयालम में लिखी पोस्ट में. केरल के विधायक ने कहा, 'कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को 'आजाद कश्मीर' के रूप में जाना जाता है और यह ऐसा क्षेत्र है जहां पाकिस्तान सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है।'

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाली पिछली एलडीएफ सरकार में मंत्री रहे जलील ने कहा कि भारत अधीन जम्मू कश्मीर में जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल हैं। भाजपा नेता संदीप वारियर ने जलील की टिप्पणी पर कहा 'उनकी जहरीली सोच पंक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है।'

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...भरोसे का प्रतीका

सूचना प्रोद्योगिकी प्रभाग प्र.का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ई-मेल : itdhw@pnb.co.in, दूरभाष : 011-23311452) निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक एसटीक्यूसी प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों की खरीद के लिए बिक्रेताओं के पैनल के लिए आरएफपी के लिए योग्य बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।

इच्छक बोलीदाता विस्तत आरएफपी दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी ई-प्रोक्योरमें ट वेबसाइट https://etender.pnbnet.in या https://www.pnbindia.in पर जा सकते हैं | हमारे ई-प्रयेक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से बोलियों को डिजिटल सर्टिफिकेट (हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन) का उपयोग करके ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन बोली की तैयारी और हैश सबिमशन की अंतिम तिथि 09.09.2022, 1600 बजे और बोली पूनः एन्क्रिप्शन और बोली की हार्ड कोंपी जमा करने की 12.09.2022, 1400 बजे तक है।

आरएफपी से संबंधित सभी भावी संचार हमारी वेबसाइट https://etender.pnbnet.in और https://www.pnbindia.in पर अपलोड किए जाएंगे। मुख्य प्रबंधक IndusInd Bank ( )

एफआरआर ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत सूचना

एतद्द्वारा उन कर्जदारों/बंधकों/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है, जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चुक की है और जिनके ऋण खाते को 28 **मार्च**, 2022 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रयर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत 3,86,25,060.12 (केखल तीन करोड़ **छियासी लाख पच्छीस हजार साठ रुपए और बारह पैसे**) जो 30.04.2022 को है और 01.05.2022 से लागू दर आगामी ब्याज व पेनल ब्याज और उस पर उपार्जित अन्य कोई लागत, प्रभार, खर्चें, क्रेडिट कम करके यदि कोई है, की अदायगी के लिए मांग करते हुए उनके अंतिम ज्ञात पतों पर 19 मई, 2022 को नोटिस जारी किए थे। तथापि, कुछ नोटिस अवितरित वापिस आ गए थे और इसलिए इस सार्वजिक सुचना के बारे में एतद्द्वारा सुचित किया जाता है।

कर्जदार का नाम: 1. मनू स्टील प्रा. लि. (कर्जदार/बंधक) 3266, पीपलमहादेव, हीज काजी, दिल्ली-110006

- . श्री राजेश कंसल (निदेशक/गारंटर) 150ए, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद-201009
- ). **श्री राकेश कंसल उर्फ राकेश कुमार कंसल** (निदेशक/गारंटर) 150ए, मॉडल टाउन ईस्ट, गांजियाबाद-201009
- . श्री रतनलाल (गारंटर) 150ए, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद-201009 भी मनु कंसल (गारंटर) 150ए, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद-201009

**प्रतिभृतित संपत्तियों का विवरण:**- कंपनी की संपूर्ण चालु परिसंपत्तियों का बंधक जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल का स्टॉक, प्रगति पर कार्य, तैयार माल, प्राप्य, बही ऋण और अन्य चाल परिसंपत्तियां शामिल हैं। **संपार्श्विक**: मालिकों ("बंधककर्ता") द्वारा अचल संपत्तियों के बैंक को शीर्षक विलेख जमा करने के माध्यम से सम्यक रेहन, जिसका विवरण नीचे दिया

अचल संपत्तियों का विवरण मालिक/बंधककर्ता औद्योगिक प्लॉट/संपत्ति संख्या सी-121 (रकबा 5781 वर्ग यार्ड), साइट- I, औद्योगिक क्षेत्र, बुलंदशहर रोड, गाजिपाबाद। नीचे दिए अनुसार मन् स्टील प्राइवेट ग्रीमाबद्धः उत्तरः प्लॉट नंबर सी–122, दक्षिणः प्लॉट नंबर सी–120, पूर्वः 80' चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लॉट नंबर बी– 5 और बी– 6 उपरोक्त कर्जदारों और गारंटरों व रेहनकर्ताओं को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर बकाया राशि अदा करने के लिए आमंत्रित किय नाती है जिसमें असफल होने पर, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की अवधि के बाद आगामी कार्यवार्ह

दिनांक: 12.08.2022 स्थानः दिल्ली

> IndoStar Capital Finance Limited. Registered Office - One World Centre, Tower 2A, 20" Floor, Jupiter Mills Compound,

S B Marg, Mumbai - 400013, India

कृते इंडसइंड बैंक लि.

प्राधिकृत अधिकारी

Branch Office - Indore वेत्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस।

में, मैससे इंडोस्टार कैंपिटल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी (यों / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रों) को निम्नलिखित नोटिस देता हूं, जिन्होंने अपने कानूनी जिम्मेदारियों यानी मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में चूक के साथ–साथ ब्याज और अन्य शुल्क जो संपत्ति पर ऋण(णों) के लिए उन्हें मेसर्स इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए थे, के निर्वहन में पूरी तरह से विफल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप—ऋण (ऋणों) कंपनी की गैर–निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए. । बन गए हैं। तदनुसार,वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और उसके नियमों के तहत उन्हें 23 जुलाई 2022 को भारत डाक के माध्यम से उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस दिनांक 20" जुलाई 2022 जारी किय गया था। हालांकि यह उन्हें बिना प्रदान किए वापस कर दिया गया है और यह आशंका है कि यहां उल्लिखित पक्ष उसकी सेवा से बच रहे हैं। | ऐसे उधारकर्ता (ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रों) नामित व्यक्तियों को इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए उनकी संपूर्ण बकाया राशि और जिसके लिए उनके द्वारा प्रतिभृतियों का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है,का भुगतान करें

उधारकता/ सह—उधारकता का नाम आर पता	प्रातभूति का विवरण	सूचना दिनाक और मागी गई राशि
(उधारकर्ता) 1) मैसर्स री इजी एनीमेशन,	उपरोक्त सभी– यूनिट नंबर–	सूचना दिनांक — 20 "जुलाई 2022"
406, चौथी मंजिल, क्षितिज भवन, 11/2 दक्षिण तुकोगंज इंदौर	406 चौथी मंजिल क्षितिज	LSIDR03917-180001221
<b>-</b> 452001,	प्लॉट नंबर 11/5 दक्षिण	19 जुलाई–2022 की स्थिति के अनुसार र
(सह—उधारकर्ता) 2) श्री कयामुद्दीन खान,	तुकोगंज, इंदौर —452001	53,64,661—(तिरपन) लाख चौसठ हजार छ
406 चौथी मंजिल, क्षितिज भवन 11/2 दक्षिण तुकोगंज		सौ इकसठ रुपये मात्र)
,इंदौर-452001		LSIDR06118-190003171
ऋण संख्या—LSIDR03917—180001221		19 जुलाई–2022 की स्थिति के अनुसार र
LSIDR06118-190003171		7,51,829 / — (रुपये सात लाख इक्याव
		हजार आठ सौ उनतीस मात्र)

यह कदम गैर-सेवित नोटिस(सों) के स्थान पर वैकल्पिक सेवा के लिए उठाया जा रहा है। उपर्यक्त उधारकर्ता (ओं) / सह-उधारकर्ता (ओं) गारंटर (रों) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उपरोक्त मांगी गई राशि का भुगतान करें। इसमें असफल होने पर (इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी भी अन्य सही उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना)वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(4) के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके नियम के तहत प्रतिभूति संपत्तियों / बंधक संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उपरोक्त नामित पार्टियों को भी सलाह दी जाती है कि वे उपर्यक्त संपत्तियों में अलगाव, तीसरे पक्ष का हित का निर्माण न करें, जिस पर इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड का पहला प्रभार है।

स्थान – इंदौर दिनांक -12.08.2022

की जाएगी।

(पार्थी सरकार) अधिकृत अधिकारी

एवन मकेन्टाइल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः अपर बेसमेंट, स्मार्ट भारत मॉल, प्लॉट नं. आई-2, सेक्टर-25ए, नोएडा (उत्तर प्रदेश-201301) दूरभाष : 0120-3355131, सीआईएन : L17118UP1985PLC026582 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाखों में)

विवरण	30.06.2021 को समाप्त	31.03.2021 को समाप्त	30.06.2020 को पूर्व वर्ष में	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	3 महीने	पूर्व 3 महीने		( अंकेक्षित )
	( अनंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	3 महीने (अनंकेक्षित)	(
परिचालनों से कुल आय	155.07	157.8	149.17	624.83
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	-16.51	-159.45	-2.95	-188.83
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)	-16.51	-159.81	-2.95	-188.83
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)	-16.51	-159.81	-2.95	-189.19
अविधि हेतु कुल व्यापक आय [(अविधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	-16.51		-2.95	-189.19
इक्विटी शेयर पूंजी	74774	74774	74774	74774
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	0	0	0	-
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) :			7 0	
क) बेसिक:	(0.22)	(2.14)	(0.04)	(2.53)
ख) डाइल्यूटेड	(0.22)	(2.14)	(0.04)	(2.53)

टिप्पणी:

स्थानः नोएडा

तिथि: 12.08.2022

उपरोक्त अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 12 अगस्त, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत यथा वांछित सीमित समीक्षा रिपोर्ट सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा तैयार की गई है।

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com तथा www.cseindia.com और कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.avonmercantile.co.in पर उपलब्ध है।

कृते एवन मर्केन्टाइल लिमिटेड के लिये

कम्पनी सचिव एसीएस 42944

(naukri,com

info**edge** 

(दिशा सोनी)

99 acres

Jeevansathi.

Amount in ₹ (Mn)

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

Results on Standalone Basis **Results on Consolidated Basis** 

	Results on Standalone Basis			Results off Consolidated Basis				
Particulars	3 months ended 30/06/2022	Preceding 3 months ended 31/03/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2021	Previous year ended 31/03/2022	3 months ended 30/06/2022	Preceding 3 months ended 31/03/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2021	Previous year ended 31/03/2022
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from operations (net)	5,076.59	4,555.12	3,283.00	15,624.59	5,472.65	4,729.47	3,286.03	15,890.26
2. Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,941.52	1,594.60	1,333.72	5,892.77	3,394.49	2,857.30	450.03	30,254.04
3. Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,941.52	1,594.60	1,333.72	101,008.98	3,394.49	7,603.06	1,954.85	142,001.14
4. Net Profit for the period after tax	1,484.26	1,206.96	1,052.76	89,225.47	2,924.31	7,196.11	1,576.42	128,822.30
5. Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)]	(28,233.14)	(56,851.52)	1,066.79	96,225.91	(33,419.72)	(64,207.81)	1,582.34	121,120.77
6. Equity Share Capital	1,289.84	1,287.84	1,287.84	1,287.84	1,289.84	1,287.84	1,287.84	1,287.84
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year				138,434.13				171,126.55
Earning per share (of₹10 each) (not annualised)								
a) Basic - Profit after tax (after exceptional items)	11.54	9.38	8.19	693.25	13.91	48.86	12.03	991.38
a) Basic - Profit after tax (before exceptional items)	11.54	9.38	8.19	35.78	13.91	11.99	0.32	223.41
b) Diluted - Profit after tax (after exceptional items)	11.48	9.32	8.13	689.20	13.84	48.58	11.94	985.58
b) Diluted - Proft after tax (before exceptional items)	11.48	9.32	8.13	35.57	13.84	11.92	0.32	222.10
Nicke		2.0		M v		7	20	di .

माप 110 वर्ग गज है। नई दिल्ली-110046 में स्थित हैं, और जो उप-पंजीयक-IX, दिल्ली के

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place : Noida Date: August 12, 2022

पूर्व- अन्य की संपत्ति पश्चिम- अन्य की संपत्ति उत्तर- अन्य की संपत्ति दक्षिण- आम गलियारा

और जो इस प्रकार परिसीमित हैं:

2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

**को-ऑपरेटिव बैंक लि.**" के प्रभाराधीन होगा।

किया जाता है।

(हरीश शमी) प्राधिकृत अधिकारी दी कांगडा को-ऑपरेटिव बैंक लि. दिनांकः 10.08.2022

पंजीकरण के अंतर्गत पडता है।

प्रधान कार्यालय सी-29, सामुदायिक केंद्र पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-58







Hitesh Oberoi

Managing Director

www.readwhere.com